

# मिलिंद सोमन ने धनिया, काली मिर्च, तुलसी, अदरक और गुड़ से बना काढ़ा पीकर कोरोना को मात दी



मुंबई। पूरे देश में कोरोना कहर बरपा रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र में कोरोना का कहर काफी तेजी से बढ़ रहा है। जिसके चलते बॉलीवुड सेलेब्स भी तेजी से इसका शिकार हो रहे हैं। गोविंदा, अक्षय कुमार, विक्की कौशल, भूमि पेडनेकर, रणबीर कपूर, एजाज खान सहित कई एक्टर इस संक्रमण का शिकार हो गए हैं। एक्टर मिलिंद सोमन भी पिछले दिनों कोरोना की चपेट में आ गए थे। जैसे ही मिलिंद कोरोना (Milind Soman) पॉजिटिव हुए थे तो उन्होंने खुद को क्वारनटीन कर लिया था। बचाव और सावधानी के चलते अब मिलिंद निगेटिव आ गए हैं। जो उनके फैस के लिए अच्छी खबर है। मिलिंद ने पत्नी अंकिता संग सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर इस बात की जानकारी दी है।

अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिलिंद ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि, क्वारनटीन का समय खत्म हुआ रिपोर्ट निगेटिव आई है, आप सभी की लगातार दुआओं और पॉजिटिविटी के लिए धन्यवाद। साथ ही मिलिंद ने पत्नी अंकिता को भी धन्यवाद करते हुए थैंक यू अंकिता लिखा है।

आगे मिलिंद ने अंकिता के लिए लिखा है कि, जो मेरे मना करने के बावजूद गुवाहाटी से चली आई.... उन्होंने एंजेल की तरह मेरा ख्याल रखा।

पोस्ट में मिलिंद ने बताया कि क्वारनटीन के बीच वह एक विशेष काढ़ा भी ले रहे थे। उन्होंने बताया कि मैंने धनिया, काली मिर्च, तुलसी, अदरक और गुड़ से बना काढ़ा पिया। जो उनके लिए लाभकारी रहा। मिलिंद ने बताया कि पहले हफ्ते वे कुछ सूंघ नहीं पा रहे थे। इस दौरान उन्होंने दवाइयां या सप्लीमेंट्स की जगह ब्लड थिनर लिया। पोस्ट में मिलिंद ने डॉक्टर का भी शुक्रिया किया।